

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक- सितम्बर 28- 2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 157 वाहनों का चालान व 08 वाहनों से 8500/- रुपया शमन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा आम जनमानस को पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके जिसके अन्तर्गत धारा 290 भादवि-20 व 110 जी जा फौ0-14 व्यक्तियों का चालान किया गया।

आबकारी अधिनियम मे की गयी कार्यवाही -

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सुग्रीव पुत्र रामलाल नि0 टेढी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जुआ अधिनियम मे की गयी कार्यवाही -

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1- प्रदीप पुत्र सुखु 2- अखिलेश पुत्र रामनवल 3-राकेश पुत्र घरभरन नि0गण शाहाबाद 4-कमलेश पुत्र रामसजीवन सा0 फुलमनहा थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से ताश के 52 पत्ते, माल-फड-280/- रूपया व जामा तलाशी-385/- रूपया बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 221/21 धारा 13 जुआ अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गुण्डा अधिनियम मे की गयी कार्यवाही -

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण- 1- योगेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मी सा0 सोनिया 2- शिवकुमार पुत्र रामनयन सा0 लखिमा 3- रामअधार पुत्र चिनगी 4- गोपाल पुत्र महेश 5- संजय पुत्र रामकेवल नि0गण रामपुर चकिया 6- सचिन पुत्र बुद्धिराम सा0 परसा बुजुर्ग 7- धर्मेन्द्र पुत्र रामजतन माधोपुर थाना श्यामदेउरवा के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/21 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

***विवेचनाओं का निस्तारण*-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-21 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 27/28-09-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 26 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।